



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 1982/ पौष 28, 1903

N 16]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 1982/PAUSA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1982

सा० का० नि० 20 (अ०)—केन्द्रीय सरकार, बर्मा  
आयल कम्पनी [आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल  
कम्पनी लिमिटेड और बि बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड  
के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1981 (1981 का 41)  
की धारा 22 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित  
नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बर्मा आयल कम्पनी [आयल इण्डिया  
लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और बि बर्मा  
आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन]  
(निधि का प्रशासन) नियम, 1982 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. न्यायों का गठन सम्बन्धित रहने तक निधि का प्रशासन

असम आयल कम्पनी लिमिटेड या बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया  
ट्रेडिंग) लिमिटेड द्वारा भारत में अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में नियोजित  
या पहले नियोजित व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए या ऐसे व्यक्तियों की  
प्रसुविधा के लिए जो आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा नियोजित या पहले  
नियोजित किए गए थे, स्थापित भविष्य निधि, अधिर्वाता निधि, उपदान  
निधि कल्याण निधि या अन्य निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा  
गया है) के खाते में जमा और यथास्थिति इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड  
या आयल इण्डिया लिमिटेड के बर्मा आयल कम्पनी [आयल इण्डिया लिमिटेड  
के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और बि बर्मा आयल कम्पनी  
(इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम,  
1981 (1981 का 41) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन  
अन्तर्गत निधियों के विषय में संव्यवहार, उस धारा की उपधारा (3) में  
यथानिर्दिष्ट एक या अधिक व्याप्तों का गठन होने तक उनकी अपनी-अपनी  
निधियों को लागू नियमों और विनियमों और उन्हें शासित करने वाली  
किसी निधि के उपबंधों के, जो 14 अक्टूबर, 1981 के ठीक पूर्व प्रवृत्त  
थे, अनुसरण में, यथास्थिति, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड या  
आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

[काइल सं० आर-44012/2/82-न(म० सी०)]

राज कुमार भार्गव, उप सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS &**

**FERTILIZERS**

**(Department of Petroleum)**

**NOTIFICATION**

New Delhi the 18th January, 1982

**G.S.R. 20(E).**—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Burmah Oil Company [Acquisition of Shares of Oil India Limited and of the Undertakings in India of Assam Oil Company Limited and the Burmah Oil Company (India Trading) Limited Act, 1981 (41 of 1981)] the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement :**

(1) These rules may be called the Burmah Oil Company (Acquisition of Shares of Oil India Limited and of the Undertakings in India of Assam Oil Company Limited and Burmah Oil Company (India Trading) Limited (Administration of Funds) Rules, 1982.

(2) They shall come into force at once.

**2. Administration of Funds pending constitution of Trusts :**

(1) The funds standing to the credit of provident funds, superannuation fund, gratuity fund, welfare or other funds (hereinafter referred to as Funds) established by the Assam Oil Company Limited or the Burmah Oil Company (India Trading) Limited, for the benefit of the persons employed or formerly employed by them in connection with the Undertakings in India or for the benefit of such person and persons employed or formerly employed by the Oil India Limited and standing transferred to the Indian Oil Corporation Limited or the Oil India Limited, as the case may be, under sub-section (1) of section 12 of the Burmah Oil Company (Acquisition of Shares of Oil India Limited and of the Undertakings in India of Assam Oil Company Limited and the Burmah Oil Company (India Trading) Limited Act, 1981 (41 of 1981), shall until the constitution of one or more trusts as referred to in sub-section (3) of that section be dealt with by the Indian Oil Corporation Limited or Oil India Limited, as the case may be, in accordance with the provisions of the rules and regulations applicable to and of any law governing the respective Funds as in force immediately before the 14th day of October, 1981.

[F. No. R-44012/4/81-MC.]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.